



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2008/माघ 12, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2008/MAGHA 12, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

संशोधन

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2008

विषय : ईरान, मलेशिया, कोरिया आर. ओ. के., थाइलैंड, यूएई तथा वियतनाम से कॉम्पैक्ट डिस्क-रिकॉर्डेबल (सीडी-आर) के आयातों पर पाटनरोधी जांच के प्रारंभिक परिणामों में संशोधन।

सं. 14/9/2007-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 13-12-2007 की अधिसूचना सं. 14/9/2007-डीजीएडी के तहत अंतिम परिणामों को अधिसूचित किया गया है।

दिनांक 13-12-2007 की उक्त अधिसूचना के पैरा सं. 85 में शुल्क तालिका में संशोधन किए गए हैं जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8523.90.50	कॉम्पैक्ट डिस्क-रिकॉर्डेबल (सीडी-आर) एक बार लिखें बार-बार पढ़ें	थाइलैंड	थाइलैंड	मै. पैन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कं. लि.	मै. पैन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कं. लि.	0.74	प्रति नग	भारतीय रुपया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	8523.90.50	कॉम्पैक्ट डिस्क- रिकॉर्डेबल (सीडी-आर) एक बार लिखें बार- बार पढ़ें	थाइलैण्ड	थाइलैण्ड	क्र. सं. 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक		1.11	प्रति नग	भारतीय रुपया
3.	-वही-	-वही-	थाइलैण्ड	थाइलैण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई भी	कोई भी	1.11	प्रति नग	भारतीय रुपया
4.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	थाइलैण्ड	कोई	कोई	1.11	प्रति नग	भारतीय रुपया
5.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम	मै. राइटेक वियतनाम कं. लि.	मै. राइटेक वियतनाम कं. लि.	3.04	प्रति नग	भारतीय रुपया
6.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम	क्र. सं. 5 के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक एवं निर्यातक		3.23	प्रति नग	भारतीय रुपया
7.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	3.23	प्रति नग	भारतीय रुपया
8.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	वियतनाम	कोई	कोई	3.23	प्रति नग	भारतीय रुपया
9.	-वही-	-वही-	कोरिया	कोरिया	मै. न्यूस्टार डिजिटल	मै. न्यूस्टार डिजिटल	2.51	प्रति नग	भारतीय रुपया
10.	-वही-	-वही-	कोरिया	कोरिया	क्र. सं. 9 के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक तथा निर्यातक		3.09	प्रति नग	भारतीय रुपया
11.	-वही-	-वही-	कोरिया	कोरिया के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	3.09	प्रति नग	भारतीय रुपया
12.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोरिया	कोई	कोई	3.09	प्रति नग	भारतीय रुपया
13.	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान	कोई	कोई	2.63	प्रति नग	भारतीय रुपया
14.	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	2.63	प्रति नग	भारतीय रुपया
15.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	ईरान	कोई	कोई	2.63	प्रति नग	भारतीय रुपया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.	8523.90.50	कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल (सीडी-आर) एक बार लिखें बार- बार पढ़ें	मलेशिया	मलेशिया	कोई	कोई	2.27	प्रति नग	भारतीय रुपया
17.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	2.27	प्रति नग	भारतीय रुपया
18.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	मलेशिया	कोई	कोई	2.27	प्रति नग	भारतीय रुपया
19.	-वही-	-वही-	यूएई	यूएई	कोई	कोई	3.08	प्रति नग	भारतीय रुपया
20.	-वही-	-वही-	यूएई	यूएई के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	3.08	प्रति नग	भारतीय रुपया
21.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	यूएई	कोई	कोई	3.08	प्रति नग	भारतीय रुपया

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

AMENDMENT

New Delhi, the 28th January, 2008

Subject : Amendment in preliminary findings of Anti-dumping investigations on imports of Compact Disc—Recordable (CD-R) from Iran, Malaysia, Korea ROK, Thailand, UAE and Vietnam.

No. 14/9/2007-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof. The Designated Authority has notified the final findings *vide* Notification No. 14/9/2007-DGAD dated 13-12-2007.

In the above said Notification dated 13-12-2007 in para No. 85 the Duty Table is amended to read as follows :—

DUTY TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8523.90.50	Compact Disc-Recordable (CD-R) Write once read many times	Thailand	Thailand	M/s. Panstar Electronics Co. Ltd.	M/s. Panstar Electronics Co. Ltd.	0.74	Per piece	INR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	8523.90.50	Compact Disc Recordable (CD-R) Write once read many times	Thailand	Thailand	Any combination of producer and exporter other than at S.No. 1		1.11	Per piece INR	
3.	-do-	-do-	Thailand	Any country other than Thailand	Any	Any	1.11	Per piece INR	
4.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Thailand	Any	Any	1.11	Per piece INR	
5.	-do-	-do-	Vietnam	Vietnam	M/s. Ritek Vietnam Co. Ltd.	M/s. Ritek Vietnam Co. Ltd.	3.04	Per piece INR	
6.	-do-	-do-	Vietnam	Vietnam	Any combination of producer and exporter other than at S. No. 5		3.23	Per piece INR	
7.	-do-	-do-	Vietnam	Any country other than Vietnam	Any	Any	3.23	Per piece INR	
8.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Vietnam	Any	Any	3.23	Per piece INR	
9.	-do-	-do-	Korea	Korea	M/s. Newstar Digital	M/s. Newstar Digital	2.51	Per piece INR	
10.	-do-	-do-	Korea	Korea	Any combination of producer and exporter other than at S. No. 9		3.09	Per piece INR	
11.	-do-	-do-	Korea	Any country other than Korea	Any	Any	3.09	Per piece INR	
12.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Korea	Any	Any	3.09	Per piece INR	
13.	-do-	-do-	Iran	Iran	Any	Any	2.63	Per piece INR	
14.	-do-	-do-	Iran	Any country other than Iran	Any	Any	2.63	Per piece INR	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.	8523.90.50	Compact Disc-Recordable (CD-R) Write once read many times	Any country other than subject countries	Iran	Any	Any	2.63	Per piece	INR
16.	-do-	-do-	Malaysia	Malaysia	Any	Any	2.27	Per piece	INR
17.	-do-	-do-	Malaysia	Any country other than Malaysia	Any	Any	2.27	Per piece	INR
18.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Malaysia	Any	Any	2.27	Per piece	INR
19.	-do-	-do-	UAE	UAE	Any	Any	3.08	Per piece	INR
20.	-do-	-do-	UAE	Any country other than UAE	Any	Any	3.08	Per piece	INR
21.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	UAE	Any	Any	3.08	Per piece	INR

R. GOPALAN, Designated Authority